



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 469] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 12, 1983/अग्राहायण 21, 1905
No. 469] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 12, 1983/AGRAHAYANA 21, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1983

सं० का० नि० 886(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 7 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय वन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति)—तृतीय संशोधन विनियम, 1983 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1967 के विनियम 4 के खंड (3) के नीचे निम्नलिखित उपविनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3-क) परीक्षा में बैठने के प्रयास

जब तक इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अपवाद के अन्तर्गत न आने हों तब तक पहली जनवरी,

1984 के बाद परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को, जो अन्यथा पात्र है, परीक्षा में 3 बार बैठने की अनुमति होगी।”

[संख्या 16011/2/82-अ०भा०से० (IV)]
वी० आर० श्रीनिवासन, अवर सचिव

टिप्पणी—मुख्य विनियमों को, जो दिनांक 11-4-1967 की सा० का० नि० संख्या 535 के रूप में गृह मंत्रालय की दिनांक 11-4-1967 की अधिसूचना संख्या 2/7/64-अ०भा०से० (IV) के अधीन अधिसूचित किए गए थे, बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया:—

अनुक्रमांक	अधिसूचना संख्या	दिनांक	भा०का० नि० संख्या	राजपत्र की तारीख
1.	4/70/68(i) अ०भा०से० (IV)	25-7-69	1806	2-8-69
2.	4/1/70(i) अ०भा०से० (IV)	21-11-70	1956	28-11-70
3.	3/31/70(ii) अ०भा०से० (IV)	26-4-71	664	8-5-71
4.	4/2/72-अ०भा०से० (IV)	23-2-73	69(ई)	23-2-73
5.	32/1/74-अ०भा०से० (III)	25-3-75	431	5-4-75
6.	16021/1/75-अ०भा०से० (III)	29-9-75	2502	11-10-75
7.	11028/1/77-अ०भा०से० (I)-ग	29-3-78	454	8-4-78
8.	16012/1/79-अ०भा०से० (IV)	24-1-80	15(ई)	24-1-80
9.	11028/1/81-अ०भा०से० (I)	25-1-82	27(ई)	25-1-82
10.	11028/1/83-अ०भा०से० (I)-ग	29-9-83	759(ई)	29-9-83
11.	11028/3/83-अ०भा०से० (I)-ग	3-11-83	822(ई)	3-11-83

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Personnel & Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 1983

G.S.R. 886(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of rule 7 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, the Central Government, after consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Appointment by Competitive Examination) Regulations, 1967, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Appointment by Competitive Examination) Third Amendment Regulations, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Appointment by Competitive Examination) Regulations, 1967, in regulation 4 after clause (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

“(3-A) Attempts at the examination—

Unless covered by any of the exceptions that may from time to time be notified by the Central Government in this behalf, every candidate appearing in the exami-

nation after 1st January, 1984, who is otherwise eligible shall be permitted three attempts at the examination.

[N]. 16011/2/82-AIS(IV)]

V.R. SRINIVASAN, Under Secy.

Note :—Principal Regulations notified vide Notification No. 2/7/64-AIS(IV) dated 11-4-1967. GSR No. 535, dated 11-4-1967.

Subsequent Amendments by :
Notification No. & date G.S.R. No. & Date of Publication

4/70/68(i)AIS(IV) Dt. 25-7-69	1805, Dt. 2-3-1969
4/1/70 (i)IAS(IV) Dt. 21-11-70	1956, Dt. 28-11-1970
3/31/70-(ii)AIS(IV) Dt. 26-4-71	664, Dt. 8-5-1971
4/2/72-AIS(IV) Dt. 23-2-73	69E, Dt. 23-2-1973
32/1/74-AIS(III) Dt. 25-3-75	431, Dt. 5-4-1975
16021/1/75-AIS(III) Dt. 29-9-75	2502, Dt. 11-10-1975
11028/1/77-AIS(I)-C Dt. 29-3-78	454, Dt. 8-4-1978
16012/1/79-AIS(IV) Dt. 24-1-80	15E, Dt. 24-1-1980
11028/1/81-AIS(I) Dt. 25-1-1982	27E, Dt. 25-1-1982
11028/1/83-AIS(I)-C Dt. 29-9-83	759E, Dt. 29-9-1983
11028/3/83-AIS(I)-C Dt. 3-11-83	822E, Dt. 3-11-1983